

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
5/12/2013	<p style="text-align: center;"><b>सारण समाहरणालय, छपरा। न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील वाद सं० 11/2013 दीपनारायण राय बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, मद्रौरा आदेश</b></p> <p>संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 1928/2013 दीपनारायण राय बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.02.2013 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मद्रौरा के आदेश ज्ञापांक 24/मु० दिनांक 2.7.2012 के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई।</p> <p>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमनौर के द्वारा सूचित किया गया था कि दिनांक 9.5.2012 को संध्या 6.30 बजे थानाध्यक्ष भेल्दी द्वारा सूचना के आधार पर भेल्दी थाना के साथ खरिदहां कोल्ड स्टोर के पास पहुँचे, उसी समय अपहर की ओर से पिकअप भान को रोका गया, पर चालक वाहन को रोका नहीं वाहन को भगाने लगा, जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया था। पिकअप भान पर चार ड्रम किरासन तेल पाया गया था। चालक से पृच्छा करने पर बतलाया था कि उक्त किरासन विक्रेता दीपनारायण राय, पिता-पंछी राय एवं रीता सिन्हा एवं पति अरुण कुमार श्रीवास्तव पंचायत-अपहर का है, जो पिकअप भान का मालिक शैलेन्द्र पाण्डेय, पिता-रामेश्वर पाण्डेय, ग्राम-सलखुआ, थाना-अमनौर के मिली भगत एवं कालाबाजारी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पिकअप भान सं० W.B. 23B-0994 पर लदे चार ड्रम में कुल लगभग 800 लीटर किरासन तेल उपलब्ध था, जिसकी जप्ती सूची तैयार कर विक्रेता एवं रीता सिन्हा के विरुद्ध भेल्दी थाना कांड सं० 46/2012 दिनांक 10.5.2012 के तहत 7EC का मामला दर्ज किया गया था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमनौर के प्रतिवेदन एवं भेल्दी थाना कांड सं० 46/2012 दिनांक 10.5.2012 के आलोक में किरासन तेल की कालाबाजारी की संलिप्ता के आरोप में विक्रेता से कारणपृच्छा की माँग किया गया था। विक्रेता से प्राप्त कारणपृच्छा में प्रस्तुत किए गए तर्क से उनके उपर लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता और प्राथमिकी में वर्णित आरोप सत्य प्रतीत पाया गया बतलाया। विक्रेता द्वारा प्राप्त कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों, निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्राथमिकी में वर्णित आरोप के अवलोकन तथा</p>	

*[Handwritten Signature]*

